



AF-4062

BBA (Part - III)

Term End Examination, 2017-18

Group - A

Paper - I

Financial Management

Time : Three Hours] [Maximum Marks : 75

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note : Answer **all** questions. All questions carry equal marks.

इकाई / Unit-I

1. वित्तीय प्रबन्ध क्या है? वर्तमान समय में वित्तीय प्रबन्ध व्यावसायिक प्रबन्ध का महत्वपूर्ण अंग क्यों माना जाता है?

What is Financial Management? Why is financial management considered an important organ of business management in present time?

अथवा / OR

(2)

एक कम्पनी की पुस्तकों से निम्न तथ्य उपलब्ध कराये गए हैं :

वर्ष	विक्रय(₹)	लाभ(₹)
2016	4,00,000	40,000
2017	6,00,000	80,000

ज्ञात कीजिए :

- (a) लाभ मात्रा अनुपात
- (b) समविच्छेद बिन्दु
- (c) स्थायी लागत
- (d) ₹ 2,00,000 की बिक्री पर लाभ
- (e) ₹ 1,60,000 लाभ अर्जित करने के लिए बिक्री

The following facts have been made available from the books of a company :

Year	Sales (₹)	Profit (₹)
2016	4,00,000	40,000
2017	6,00,000	80,000

Calculate :

- (a) Profit Volume Ratio

(3)

- (b) Break-Even Point
- (c) Fixed Costs
- (d) Profit earned on sales ₹ 2,00,000
- (e) Sales to earn a profit of ₹ 1,60,000

इकाई / Unit-II

2. एक कम्पनी की लाभांश नीति को निर्धारित करते समय किन-किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है ? समझाइए।

What considerations are kept in view while deciding the dividend policy of a company ? Explain.

अथवा / OR

अनुकूलतम पूँजी संरचना को परिभाषित कीजिए तथा इसके निर्धारकों का वर्णन कीजिए।

Define optimum capital structure and discuss the determinants of optimum capital structure.

इकाई / Unit-III

3. निम्न विवरण एक परियोजना से सम्बन्धित हैं :
- परियोजना की लागत ₹ 50,000
- संचालन बचत (ह्रास घटाने के पूर्व एवं कर के पश्चात्) :

	₹
प्रथम वर्ष	5,000

(4)

	₹
द्वितीय वर्ष	20,000
तृतीय वर्ष	30,000
चतुर्थ वर्ष	30,000
पंचम वर्ष	10,000
निम्न दशाओं में पे-बैक पीरियड की गणना कीजिए :	
(a) ब्याज कारक को ध्यान में न रखते हुए	
(b) 10% ब्याज कारक को ध्यान में रखते हुए	
वर्तमान मूल्य कारक 10% पर है :	

वर्ष	I	II	III	IV	V
वर्तमान मूल्य कारकों	0.9091	0.8265	0.7513	0.6830	0.6210

The following particulars relate to a project :

Cost of the project ₹ 50,000

Operating Savings (Before depreciation and after Tax) :

	₹
Ist year	5,000
IInd year	20,000
IIIrd year	30,000
IVth year	30,000
Vth year	10,000

(5)

Calculate pay-back period under the following cases :

(a) Ignoring interest factor

(b) Taking into account interest factor at 10%

Present value factor at 10% are :

Year	I	II	III	IV	V
P. V. F.	0.9091	0.8265	0.7513	0.6830	0.6210

अथवा / OR

रोकड़ प्रबन्ध क्या है? रोकड़ प्रबन्ध के उद्देश्य बताइए।

What is Cash Management ? Explain its objectives.

इकाई / Unit-IV

4. वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व एवं सीमाएँ बताइए।

What do you mean by Financial Statement ? Explain its importance and limitations.

अथवा / OR

(6)

एक फर्म के निम्न आंकड़ों से परिचालन लीवरेज
एवं वित्तीय लीवरेज ज्ञात कीजिए :

विवरण	स्थिति		
	I	II	III
बिक्री (इकाइयों में)	60000	15000	100000
	₹	₹	₹
विक्रय मूल्य प्रति इकाई	1.20	10.00	0.20
परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई	0.40	3.00	0.04
स्थायी लागत	14,000	28,000	3,000
ऋणपत्र पर ब्याज	8,000	16,000	—

Calculate Operating leverage and Financial leverage from the following data of a firm :

Particulars	Situation		
	I	II	III
Sales in units	60000	15000	100000
	₹	₹	₹
Selling price per unit	1.20	10.00	0.20
Variable Cost per unit	0.40	3.00	0.04
Fixed Cost	14,000	28,000	3,000
Interest on Debentures	8,000	16,000	—

(7)

इकाई / Unit-V

5. कार्यशील पूँजी प्रबन्ध से आप क्या समझते हैं ?
कार्यशील पूँजी की कमी एवं आधिक्य के खतरों
को बताइए।

What do you understand by Working Capital
Management ? Enumerate dangers of
deficiency and surplus in working capital.

अथवा / OR

किसी व्यवसाय के लिए स्कन्ध प्रबन्ध का क्या
महत्व है ? समझाइए।

What is the importance of inventory
management for a business ? Explain it.
